

उत्तराखण्ड शासन  
संस्कृत शिक्षा अनुभाग  
संख्या-767 /XLII-1/2018-03(42)2014  
देहरादून: दिनांक 26 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई-समीक्षा पोर्टल में सूचनाओं को Update किये जाने सम्बन्धी सचिव (प्रभारी), नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1532/441/e-samiksha/रा0यो0आ0/2014 दिनांक 01.11.2018 के क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित issues update किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारी को Resource Person नामित किया जाता है:-

नाम	पदनाम	दूरभाष	ई-मेल आईडी
श्री बी0एस0 नेगी	सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून	9412307600	bhunegi1964@gmail.com

2. नामित Resource Person को निर्देशित किया जाता है कि वे ई-समीक्षा पोर्टल में संस्कृत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सूचना/Issues को Upate करते हुए अद्यतन सूचना शासन एवं नियोजन विभाग को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(इन्दुधर बौड़ाई)  
प्रभारी सचिव।

संख्या- 767 (1)/XLII-1/2018- 03(42)2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव (प्रभारी), नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
3. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
4. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
11/11/18  
(महिमा)  
उप सचिव।